

Machino Plastics Limited

Registered Office & Plant: 3, Maruti J.V. Complex, Delhi-Gurugram Road, Haryana – 122 015, India.

CIN:L25209HR2003PLC035034 Tel: 0124-2341218, 2340806

Email: Sec.legal@machino.com

Website: www.machino.com

31st July, 2024

The BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 corp.relations@bseindia.com Scrip Code No: 523248

Subject: Submission of Newspaper Publication under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir.

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper publication of the notice of 39th Annual General Meeting and E-Voting information to be held on Tuesday, the 3rd September, 2024 published in Business Standard Newspaper on 31st July, 2024.

GURUGRAN

Kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully

For Machino Plastics Limited LAS7

Aditva Jindal

Chairman cum Managing Director



GURUGRAM - 122015 (HARYANA) CIN: L25209HR2003PLC035034

Tel: 0124-2341218, 2340806 Email: sec.legal@machino.com Website: www.machino.com NOTICE OF THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the thirty-ninth Annual General Meeting ("AGM") of MACHINO PLASTICS LIMITED ("Company") will be held on Tuesday, September 3, 2024 at 10:30 AM Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 in relation to extension of the framework provided in the aforementioned circulars up to September 30, 2024, issued by the MCA (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/ CFD/ CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, Circular No. SEBI/ HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM Facility, without physical presence of the Members of the Company at a

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and in compliance with the Listing Regulations, the Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") along with the Notice of AGM will be sent only through electronic mode to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company Depository Participant(s). The Annual Report along with the Notice of AGM will also be made available on the Company's website at www machino.com. websites of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and website of the NSDL at https://www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM and the detailed procedures for e-voting will be provided in the Notice of the AGM. The Company will be providing to its Members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting /e-voting will be provided in the Notice of the AGM. Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be followed for obtaining the User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

In order to receive the Notice of AGM and the Annual Report, Members are requested to register/update their email addresses with the Company by following below instructions: Instructions:

(a) Members holding shares in physical mode may register/ update their email address in prescribed Form ISR-1 with the Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company i.e. Alankit Assignments Limited

(b) Members holding shares in Demat mode may register their email address/update Company account mandate by contacting their espective Depository Participant ("DP")

For Machino Plastics Limited

Place: Gurugram ate: July 29, 2024

common venue

Aditya Jindal Chairman cum Managing Directo

EICHER

CIN: L34102DL1982PLC129877

Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi - 110017 **Telephone:** +91 11 41095173

Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana **Telephone**: +91 124 4445070 Email: investors@eichermotors.com
Website: www.eichermotors.com

NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of members of Eicher Motors Limited (the Company) is scheduled to be neld on Thursday, August 22, 2024 at 2.00 p.m. IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules framed thereunder, SEBI (LODR) Regulations, 2015, read with circulars issued by MCA and SEBI in this regard, to transact the business items as set out in the notice of the AGM

The Company has on July 30, 2024, completed sending notice of 42nd AGM along with Integrated Annual Report for financial year ended March 31, 2024 through email (using NSDL) to members whose email IDs are registered with the Company or Depositories.

The Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote on the business items as set out in the notice of the AGM from any place , through the electronic voting system ("e-voting") of NSDL. Members of the Company, holding shares either in physica form or in dematerialized form, as on the cut-off date of August 16 2024, may cast their vote by e-voting (including e-voting during AGM) Instructions & manner of casting vote through e-voting, including by members who are holding shares in physical form or have not registered their email ids, are provided in notice of the AGM. The e voting period commences on August 19, 2024 (9:00 A.M. IST) and ends on August 21, 2024 (5:00 P.M. IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and e-voting shall not be allowed beyond said date and time. The facility for e-voting shall again be made available during the AGM on August 22, 2024. The members who have not cast their votes through e-voting upto August 21, 2024 can cast their vote during the AGM using the same e-voting credentials. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be eligible to vote again at the

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. August 16, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.com** and AGM2024@eichermotors.com. However, if a member is already registered with NSDL e-services i.e. IDEAS, he can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with his existing IDEAS login. If the member forgets his password, he can reset his password by using instructions for remote e-voting contained in the AGM notice.

Members who have not registered their email ids/bank account details are requested to visit https://liiplweb.linkintime.co.in/KYC/index.html portal of Link Intime India Pvt. Ltd., Registrar & Share ransfer Agent of the Company and update their details and those holding shares in demat form are requested to contact their respective Depository Participant (DP) and follow the process advised by DP

In case of any gueries relating to voting by electronic means, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at telephonic number no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com. For any grievances relating to voting by electronic means, members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

The aforesaid Notice of 42nd AGM and Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 are available on the website of the Company at www.eichermotors.com and on the websites of stock exchanges i.e BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The above information is also available on the Company's website and website of stock exchanges

For Eicher Motors Limited

Date: July 30, 2024 Place: Gurugram, Harvana

Company Secretary

Atul Sharma



SCAN HERE TO VISIT WEBSITE

INDO COUNT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L72200PN1988PLC068972

Regd. Off.: Office No. 1, Plot No. 266, Village Alte, Kumbhoj Road, Taluka Hatkanangale, Dist. Kolhapur - 416 109. Tel. No.: (230) 2483105: Fax No.: (230) 2483275: e-mail: icilinvestors@indocount.com: Website: www.indocount.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30[™] JUNE, 2024

(₹ in lakhs except EPS)

		C	Year ended		
Sr. No.	Particulars	30-06-2024 Unaudited	31-03-2024 Unaudited (Refer Note vii)	30-06-2023 Unaudited	31-03-2024 Audited
1	Total income from operations	94,996.60	1,09,349.77	74,668.68	3,60,079.25
2	Net Profit before tax	10,761.24	12,385.52	9,699.92	45,031.14
3	Net Profit after tax	7,779.76	9,194.32	7,374.03	33,792.50
4	Total Comprehensive Income	8,127.93	9,025.39	8,413.66	33,598.07
5	Paid up Equity Share Capital	3961.08	3961.08	3961.08	3961.08
6	Earning Per Share (of ₹ 2/- each) Basic and Diluted (Not Annualised)	3.93	4.64	3.72	17.06

Place: Mumbai

Date : July 31, 2024

Notes: i) Company's Standalone Financial information is as below:

		(Year ended		
Sr. No.	Particulars	30-06-2024 Unaudited	31-03-2024 Unaudited (Refer Note vii)	30-06-2023 Unaudited	31-03-2024 Audited
1	Total income from operations	91,694.45	1,00,182.23	68,177.15	3,37,855.13
2	Net Profit before tax	10,941.04	12,446.52	9,072.86	43,110.56
3	Net Profit after tax	7,906.73	9,239.13	6,721.36	32,030.28
4	Total Comprehensive Income	8,374.24	9,161.09	7,807.85	32,237.37
5	Paid up Equity Share Capital	3,961.08	3,961.08	3,961.08	3,961.08
6	Earning Per Share (of ₹ 2/- each) Basic and Diluted (Not Annualised)	3.99	4.66	3.39	16.17

- ii) The above results of Indo Count Industries Limited ('the Company') and its Subsidiaries (together referred to as 'Group') were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 29, 2024. The Statutory Auditors of the Company have conducted a Limited Review of the above Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024.
- The above Financial Results are prepared in compliance with Indian Accounting Standard ("IndAS") as notified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") [Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015], as amended.
- During the Quarter Holding Company's wholly owned subsidiary, Indo Count Global Inc., USA, acquired the registered trademarks, trademark applications, associated intellectual property contracts and all domain names of the brand name 'Wamsutta' for a total consideration of \$10.25Mn (equivalent ₹ 8.549.01 lakhs).
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results of the Quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 are available on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website at www.indocount.com.
- vi) The Group is primarily engaged in the activity of manufacture of textile products. Information is reported to and evaluated regularly by the Chief Operating Decision Maker (CODM) for the purpose of resource allocation and assessing performance, focuses on the business as a whole and accordingly, there is a single reportable segment (i.e. Textile Business) in the context of the Operating Segment defined under Ind AS 108.
- The figures for the Quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full Financial Year ended on March 31, 2024 and the unaudited published year to date figures upto third Quarter of the said financial year.

For Indo Count Industries Limited **Anil Kumar Jain**

Executive Chairman DIN: 00086106 NEW DELHI | WEDNESDAY, 31 JULY 2024 Business Standard

Aditya Birla Sun Life **Mutual Fund**



MUTUAL FUNDS

Place: Mumbai

Date: July 30, 2024

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Registered Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mills, Senapati Bapat Marg. Flohinstone Road. Mumbai - 400 013. Tel.: 4356 8000. Fax: 4356 8110/8111. CIN: I 65991MH199

Notice

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and circulars issued from time to time, the scheme wise Annual report and abridged summary thereof for the year ended March 31, 2024 are hosted on the website of the Aditya Birla Sun Life Mutual Fund viz. https://mutualfund.adityabirlacapital.com/ and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com

The scheme wise annual report or abridged summary thereof shall be emailed to those investors, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Investors can request for a physical copy or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof through any of the following modes:

- 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800-270-7000 (Toll free)
- 2) Email: Send an email to care.mutualfunds@adityabirlacapital.com
- 3) SMS: Send a SMS to 567679 from investor's registered mobile number. SMS format: AR <SPACE>PAN. Example: AR ABCDE1234H
- 4) Written request (letter) to:
- a) Registered office or any of the Investor Service Centres of Aditya Birla Sun Life AMC Limited.
- b) Computer Age Management Services Limited (CAMS) at Computer Age Management Services Ltd., New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam, Chennai - 600 034.

For Aditya Birla Sun Life AMC Limited

(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund)

0

Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

GAYATRI HIGHWAYS LIMITED

Regd office: 5th Floor, A- Block, TSR Towers, 6-3-1090, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad-500082, Telangana.

G	Tel: 040-40024262 E	mail: cs@gay	atrihighway	s.com Web: w	ww.gayatrihi	ighways.com	CIN: L45100	TG2006PLC05	2146
	EXTRACT OF UNAUDITE	D FINAN	CIAL RES	ULTS FOR	THE QUA	ARTER EN	IDED 30T	H JUNE 2	024
		Section			73		(Rs	s. in Lakhs, un	less specified,
SI.	Particulars		5	Standalone			Consolid	ated	
No		For t	hree months	ended	For the year ended	For t	three months	ended	For the year ended
		30-Jun-2024	31-Mar-2024	30-Jun-2023	31-Mar-2024	30-Jun-2024	31-Mar-2024	30-Jun-2023	31-Mar-2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	227.09	2,086.35	89.53	2,362.72	227.09	1,971.96	75.54	2,206.35
2.	Net loss before tax and exceptional items	(210.56)	1,418.90	(458.53)	(61.94)	(210.68)	1,304.00	(472.72)	(219.23)
3.	Net profit/(loss) after exceptional items and before tax	(210.56)	1,408.90	(458.53)	(71.94)	(210.68)	(10,225.80)	(472.72)	(11,749.03)
4.	Net profit/(loss) for the period after tax from continuing operations	(213.07)	1,408.67	(458.53)	(77.25)	(213.19)	(10,226.03)	(472.72)	(11,754.34)
5.	Net profit/(loss) for the period after tax from continuing operations and discontinued operations		1,408.67	(458.53)	(77.25)	(7,493.30)	(16,826.11)	(9,768.21)	(44,112.43)
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]		1,413.46	(458.53)	(72.46)	(7,493.30)	(16,821.32)	(9,768.21)	(44,107.64)
7.	Equity share capital	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04
8.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as per the Audited Balance Sheet of the previous year				(24,040.38)			*	(1,80,269.96
9.	Earnings Per Share[of Rs.2/- each] (for continuing and discontinued operations) - Basic and Diluted (not annualized the quarterly data)		0.59	(0.19)	(0.03)	(3.13)	(7.02)	(4.08)	(18.40)

Notes:

- a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Audited Financial Results is available on the websites of
- the Stock Exchanges at www.bseindia.com (BSE), www.nseindia.com (NSE) and on the company's website at www.gayatrihighways.com. b) The above Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results were reviewed by the Audit Committee on 30th July 2024 and approved by the
- Board of Directors at their meeting held on 30th July 2024. c) The Statutory Auditors has expressed a qualified conclusion on the following:

Standalone Financial Results:

- a) The company has written back Zero Interest Subordinate Loan (ZISL) payable to Gayatri Projects Limited of Rs.17,887.51 Lakhs during the financial year 2022-23 which has been subject to confirmation from Gayatri Projects Limited. In the absence of balance confirmation, we are unable to comment upon the aforesaid write back or any adjustment required to and the consequent impact if any on these standalone financial results for
- the period 01 April 2024 to 30 June 2024 had the confirmations been received from the Gayatri Projects Limited. b) The company has defaulted in repayment of outstanding term loan of Rs.3,822.65 Lakhs and outstanding accumulated interest of Rs.1,193.21 Lakhs (Interest was recognized in the financial statements till 31 March 2023) payable to IL&FS Financial Services Limited. The Company has been calculating and recognizing interest only on the defaulted principle of Rs.3,822.65 Lakhs as per the existing loan agreement since the Company has not received balance confirmation from the said lender. In the absence of balance confirmation, we are unable to comment on the interest/penalty if any to be provided in the books or any adjustment required to and the consequent impact if any on these standalone financial results for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 had the confirmations been received from the lender.
- c) The standalone financial results the company did not provide interest on the outstanding term loan of Rs.3,822.65 Lakhs due to IL&FS Financia Services Limited for the period 01 April 2024 to 30 June 2024. The Company's records indicate that, had management provided interest for the period 01 April 2024 to 30 June 2024, the expenses, the net loss after tax and total comprehensive loss for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 would have been increased by Rs.142.95 Lakhs.

Consolidated Financial Results:

- a) The Holding Company has written back Zero Interest Subordinate Loan (ZISL) payable to Gayatri Projects Limited of Rs.17,887.51 Lakhs during the financial year 2022-23 which has been subject to confirmation from Gayatri Projects Limited. In the absence of balance confirmation, we are unable to comment upon the aforesaid write back or any adjustment required to and the consequent impact if any on these consolidated financial results for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 had the confirmations been received from the Gayatri Projects Limited.
- b) The Holding Company has defaulted in repayment of term loan of Rs.3,822.65 Lakhs and interest of Rs.1,193.21 Lakhs (Interest was recognized in the financial statements till 31 March 2023) payable to IL&FS Financial Services Limited. The holding company has been calculating and recognizing interest only on the defaulted principle of Rs.3,822.65 Lakhs as per the existing loan agreements since the Company has not received balance confirmation from the said lender. In the absence of balance confirmation, we are unable to comment on the interest/penalty if any to be provided in the books or any adjustment required to and the consequent impact if any on these consolidated financial results for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 had the confirmations been received from the lender.
- c) The Holding Company did not provide interest on the outstanding term loan of Rs.3.822, 65 Lakhs due to IL&FS Financial Services Limited for the period 01 April 2024 to 30 June 2024. The Company's records indicate that, had management provided interest for the period 01 April 2024 to 30 June 2024, the expenses, the net loss after tax and total comprehensive loss for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 would have been increased by Rs.142.95 Lakhs.
- d) We were informed that the Holding Company did not receive the unaudited financial results of Indore Dewas Tollways Limited (IDTL), which is a material subsidiary of the Holding Company for the quarter ended 30 June 2024 for the reasons stated there under. We were informed that the hon'ble NCLT bench at Hyderabad had admitted IDTL into Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 (as amended) and appointed Interim Resolution Professional (IRP). In the absence of consolidation of the subsidiary
- we are unable to determine the effects of the failure to consolidate the subsidiary on these consolidated financial results. e) We draw your attention to the following qualified conclusion on the unaudited financial results of Sai Maatarini Tollways Limited, a subsidiary of the Holding Company issued by an independent firm of Chartered Accountants vide its Report dated 29 July 2024 reproduced by us as under.
- a. As per the settlement agreement, the company and NHAI had agreed for a termination payment of Rs.96,803 lakhs against all disputes/claims The settlement amount of Rs.96,803 Lakhs includes termination payment, interest, claims receivable by the company net of recoveries by NHAI. The company had received Rs.79,650 Lakhs and balance settlement amount to be received is Rs.17,153 Lakhs. However pending settlement with the lenders, the company continues to recognise Net receivable from NHAI of Rs.98,578 Lakhs (Net of Rs.79,650 Lakhs receipt). Henceforth the expenses (Write off of Receivable) of the company are understated by Rs.81,425 Lakhs and assets overstated by Rs.81,425 Lakhs.
- b. Non receipt of the confirmations of balances from banks and financial institutions in respect of borrowings of Rs.2.18.887.00 Lakhs for the reasons detailed thereunder. The Company had recognized interest expense and other finance charges during the period amounting to Rs.6,890.83 Lakhs as per existing loan agreements. We are unable to comment on impact, if any, on loss for the period and the Reserves had the confirmations beer received from the lenders.
- c. During the Financial year 2022-23, the company has written off a receivable of Rs.1,011.02 Lakhs from Gayatri Projects Limited and written back trade payable of Rs.2,915.68 Lakhs and claims payable of Rs 22,745 lakhs to Gayatri Projects Limited. However, we have not received any confirmation from Gayatri Projects Limited for the write off/writeback For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad Chairman Date : 30th July, 2024

M.V.Narasimha Rao DIN: 06761474

K.G.Naidu Chief Executive Officer

GAYATRI HIGHWAYS LIMITED

13 12 000 /-

1.31.200 /-

कञ्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) (परिशिष्ट IV प्रतिभृति हित् (प्रवर्तन) नियम 2002 के सपठित नियम 8(1) के अनुसार) पत: (Whereas) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति-हित का प्रवर्तन (अधिनियः 2002 के अन्तर्गत (2002 सं. 54) एवं धारा 13(2) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम : h अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिस देनांक 10/05/2024 को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा जारी किया, जिसमें ऋणी एवं सह-ऋणी मैसर्स सौरभ इ टरनैशनल जरिये इसके प्रोपराईटर श्री सौरभ लाल नीलम, सश्री विना नीलम (सह-ऋणी) जरिये ऋण खाता न . DAA00250N को नोटिस में उल्लेखित राशि रू. 71,11,900.78/- (रूपये इकहत्तर लाख ग्यारह हजार नौ सौ एवं अठहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 10.05.2024 तक इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था। ऋणी/सह-ऋणियों द्वारा राशि का पूनर्भगतान करने में असफल रहने पर. ऋणियों एवं आमजन क यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का पर्योग करने हा। अधोहरनाश्रमी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति का कब्जा तारीख 26 माह जुलाई वर्ष 2024 र प्राप्त कर लिया है। ऋणी/सह-ऋणियों को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है वि स संपत्ति बाबत कोई संव्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार इंडसइंड बैंक लिमिटेड के रू. 71,11,900.78/- (रूपये इकहत्तर लाख ग्यारह हजार नौ सौ एवं अठहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 10.05.2024 तक तक और आगे के ब्याज, लागतें, शुल्कों एव खर्चों के अध्यधीन होगा।

ग्रीएनए हाउस, पहली मंजिल, प्लॉट नेंबर 57 और 57/1, एमआईडीसी, अंधेरी (ई), मुंबई- 4000

अचल संपत्ति का विवरण श्रीमती वीना कुमारी नीलम के स्वामित्व में संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें कॉर्पोरेशन नं. 8/161/1, एरि 285.67 वर्गफिट अर्थात 341.67 वर्गगज खसरा नं. 403 का हिस्सा क्षेत्रफल 50 X 61.6 जो कोशलपुर, हरी पर्वत वार्ड तहसील एवं जिला आगरा, उत्तर प्रदेश-282006 में स्थित है जिसकी सीमाएं- पूर्व में: रास्ता 4.8 मीटर चौड़ा, विक सहसारा एन विकास का का का कि किस कि है। पश्चिम: अन्य का मकान, उत्तर: श्रीमती अंगूरी देवी की संपत्ति, दक्षिण में: रास्ता 9 मीटर चौड़ा। प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 26.07.2024 स्थान: उत्तर प्रदेश मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटे:

> एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई") CIN: U65993DL2002PLC115769

पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, ईआरओएस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, ACRE नई दिल्ली-110019. ई-मेल: acre.arc@acreindia.in,वेबसाइट: www.acreindia.in कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400051. फोन: 022 68643101

> कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड ("आईएचएफएल") प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार संजय अग्रवाल, हनी अग्रवाल और कॉम्पकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर) को 09.08.2019 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. S011XII (आईएचएफएल का पूर्व कर्ज खाता नं. HHLGRG00168120) की राशि रू. 11.98.190 (रूपये) ग्यारह लाख अदानवे हजार एक सौ नब्बे मात्र) और 07.08.2019 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी । इसके अलावा आईएचएफएल ने इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्टक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में डंडियाबल्स एआरसी -XII टस्ट के टस्टी के रूप में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज 31.12.2019. को एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सौपा है, इसके अलावा इंडियाबल्स एसेट रिकन्स्टक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडियाबल्स एआरसी –XII टस्ट के टस्टी ने दिनांक 26.04.2021 के असाइनमेंट करार के माध्यम से एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रवशन एंटरप्राईज लिमिटेड ("**एसीआरई**") के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज और कर्ज खाता जिसे एसीआरर्ड की पस्तकों में कर्ज खाता नं .S011XII के रूप में पन: क्रमांकित किया गया है. सौंपा है ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 26.07.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 11.98.190(रूपये) ग्यारह लाख <mark>अट्टानवे हजार एक सौ नब्बे मात्र) 07.08.2019</mark> के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **असेट्स केअर** एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि. के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय प्लॉट नं. डी-274 जिसका क्षेत्र लगभग 220.660 स्क्वे. यार्डस. "पीयष सिटी" से पहचाने जानेवाले प्रोजक्ट में, पलवल में स्थित, फरीदाबाद-121102, हरियाणा ।

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 26.07.2024 स्थान : फरीदाबाद

असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि. (102- टस्ट)

सही/-

किसी भी शिकायत के लिए आप श्री मोहम्मद शारिक मिलक, शिकायत निवारण अधिकारी, फोन नंबर 011-66115609, ईमेल: complaint@acreindia.in से संपर्क कर सकते हैं। संगठन के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र विस्तृत रूप से https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है।



मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय एवं प्लांट: प्लॉट संख्या 3, मारुति ज्वाइंट वेंचर कॉम्पलेक्स, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) CIN: L25209HR2003PLC035034

टेलीफोन: 0124-2341218, 2340806 ईमेल: sec.legal@machino.com वेबसाइटः www.machino.com

39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी ाद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड ('कंपनी') की उनतीसवीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 3 सितंबर, 2024 को सुबह 10:30 बजे भारतीय मानक समय . (भा.मा.स.) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल. 2020. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल. 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों सबसे नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 है जो उपरोक्त परिपत्रों में प्रदान की गई रूपरेखा को 30 सितंबर, 2024 तक बढाने के संबंध में है, जिसे एमसीए द्वारा जारी किया गया है (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों, और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी परिपत्र') द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टबर, 2023 और अधिनियम के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम कंपनी के सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एमसीए परिपत्रों और सेबी सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के अनसार, नवीनतम परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और सचीबद्धता विनियमों के अनपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') एजीएम की सुँचना के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट भी कंपनी की वेबसाइट www.machino.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और उनकी उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और मतदान के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी। कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान करेगी। जो सदस्य भौतिक रूप से शेयर धारण कर रहे हैं या जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनरोध है कि वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए एजीएम की सचना देखें।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकत/अपडेट करें:

स्थानः गरुग्राम

दिनांक: 29 जुलाई, 2024

(ए) भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के रिजस्टार और टांसफर एजेंट ('आरटीए') यानी अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में अपना ईमेल पता पंजीकत/अपडेट कर सकते हैं।

(बी) डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी ('डीपी') से संपर्क करके अपना ईमेल पता पंजीकृत/कंपनी खाता अधिदेश अपडेट कर सकते हैं।

> मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड के लिए हस्ता./

आदित्य जिंदल अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड एक्सप्रेस जोन, ए विंग, ब्रह्म तल, बेरन एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पू.), मुंबई — 400 063 भारत मोबाइल : +91 8879607027 । वेबसाइट : www.rathi.con

(1) श्री धीरज (जद्यारकती). एस–६९६ स्कल ब्लॉक गली नंबर–६ शकरपर पर्वी दिल्ली दिल्ली–110092 (1) **आ बारज (उपारक्ता),** एस—ठाउ, रक्टूल ब्लाक, गला नवर—ठ, राकरपुर, यूवा ।दल्ला, ।वरला-।110092 (2) **श्रीमती अरुणा (सह—उघारकराी)**, एस—696, स्कूल ब्लॉक, गली नंबर—6, शकरपुर, यूर्वी दिल्ली, दिल्ली—110092 (**3) श्रीमती बीना (सह—उघारकराी**), एस—696, स्कूल ब्लॉक, गली नंबर—6, शकरपुर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली—110092 विषयः प्रतिभूति हित (प्रतिन) नियमावती 2002 (नियमावती) के नियम 8 (६) के प्रावधान के साथ पठित होते प्रतिभूति हित प्रतिन) के अंतर्गत के साथ पठित होते परिसंपतियों के प्रतिभूति करण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 (**'अधिनयम'**) के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के ऋणमोचन / विक्रयार्थ 30 दिवसीय ऋणमोचन सुचना।

संदर्भ : ऋण खाता संख्या APPL00001230

इसका संदर्भ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमों के अंतर्गत प्राप्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत बकाया राशियों की वसूली के लिये प्रतिभूत परिसंपत्ति को प्रवर्तित करने के उद्देश्य हेतु आरंभ किये गये सर्भ पूर्ववर्त्ती विधिक कार्यक्रमों से है। आप ऋण खाता संख्या APPL00001230 की अपनी देनदारियों के निर्वहन की ू दिशा में भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः सरफॉएसि अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ई–नीलामी य निजी संधि के माध्यम से निम्न उल्लिखित अचल प्रतिभूत परिसंपत्ति विक्रयार्थ प्रस्तावित है। यह पुनः आपके संज्ञा-में लाया जाता है कि न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद संपत्ति पर अधिग्रहण कर लिया जायेगा।

यह सूचना आप सूचना—प्राप्तकर्ताओं को प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८(८) के अनण प्रेषित की जा रही है कि आप इस सूचना से 30 दिवसों में अथवा इससे पूर्व किसी भी समय अपने ऋण न प्राचान के साथ है है है कि है कि सुनिता है के उपयोग ने जानने दूरियों है। किया नित्र कि साथ स्थाप के साथ है क खाता के साथ देव तथा मुगतानयोग्य, मुगतान होने तक लागत एवं सुन्कों एवं क्यों तथा भावीं सविद्याग्य ब्याज के साथ, अपने द्वारा बकाया देयराशियों का मुगतान करके सरफीएसि अधिनियम के अंतर्गत ऋणमोवः के अधिकार का उपयोग कर सकें, क्योंकि वर्तमान सूचना जो है वह इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगी और आपको एतदद्वारा सूचित एवं अधिसूचित किया जाता है कि विचाराधीन उक्त संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से अथवा निजी संधि द्वारा किया जायेगा। यह सूचना भी साथ में प्रेषित की जाती है कि **रु. 27,43,183/—** (रुपये सत्ताईस लाख तैंतालिस हजार एक सं तिरासी मात्र) की एक राशि बकाया है, जो भुगतान होने तक भावी संविदागत ब्याज के साथ भुगतानयोग्य है

जो आपके ऋण खाता के समक्ष देय एवं भुगतानयोग्य है, जिसका आप कृपया संज्ञान लें। संपत्ति का विवरणः नं. एस-696 धारक आवासीय प्लॉट, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 305/212 मिन. और 298/210 मिन. ² से. गली नं.-६, अनधिकृत कॉलोनी, स्कूल ब्लॉक के छूटे हुये माग, शकरपुर, दिल्ली- 110092 में स्थित तथा निम्मानुसार **परिसोमित हैं :- पूर्व**- अन्य की संपत्ति, **परिचम**- अन्य की संपत्ति, **उत्तर-** गली, **दक्षिण**- गली

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड हेतु तथा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के ओ.वी.आर. 20 के तहत संस्थापित सेवा के द्वारा सूचना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार, बोम्बे साधारण मूल सिविल न्यायाधिकरण मुकदमा नं. 2019 का 707

अड़वानी होटल्स व रिसोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड व अन्यअभियोक्ता अमता गजराल सचदेव व अन्यप्रतिवादी

डी.नं. 18 : इंफींमेशन टीवी प्राइवेट लिमिटेड

बी–116, ग्राउंड फ्लोर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज ।, नई दिल्ली–110020 Email: legal@itvnetwork.com

उक्त वर्णित मुकदमा 08.05.2019 को प्रतिवादियों के विरूद्ध अभियोक्ताओं की ओर से दायर की थी। 10.07.2024 को, माननीय बोम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि दर्शाते हुए पेपर प्रकाशन के द्वारा ऊपर नामित प्रतिवादी नं. 18 पर सम्मन की याचिका दायर करने का अभियोक्ताओं को निर्देश दिया है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त वर्णित मुकदमा बोम्बे हाई कोर्ट के सीआर नं. 35 में माननीय श्री न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर के समक्ष 07.08.2024 को सूचीबद्ध किया जाएगा, इस समय पर आप, उक्त वर्णित प्रतिवादी स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्तत रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि आपके उपस्थित न होने पर, आने वाले किसी दिन पर बोर्ड के बैठने पर मुकदमे पर आदेश दिया जाएगा क्योंकि आरक्षित और आप आपके विरुद्ध आदेश या निर्णय पास करने के पात्र होंगे।

दिनांक : 31 जुलाई, 2024

हस्ता. /-इंडसलॉ, मुंबई

अभियोक्ताओं के लिए अधिवक्ता 81—83, 8वीं मंजिल, ए—विंग मित्तल कोर्ट, जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400021

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

नई दिल्ली (पीठ - IV) के समक्ष कंपनी याचिका संख्या - सी.पी. (सीएए) - 60/ND/2024 कंपनी आवेदन संख्या - सी.ए. (सीएए) - 52/D /2024 से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

समामेलन की योजना के मामले में

आशा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड सेंटीफोलिया डीलर्स पाइवेट लिमिटेड महावीर मल्टीरेड प्राइवेट लिमिरेड

.राजा क जानारू नहस्तांतरक कंपनी संख्या १/याचिकाकर्ता कंपनी संख्या और ...हस्तांतरक कंपनी संख्या २/याचिकाकर्ता कंपनी संख्या २ और ...हस्तांतरक कंपनी संख्या ३/ याचिकाकर्ता कंपनी संख्या ३ ..हस्तांतरक कंपनी संख्या ४/ याचिकाकर्ता कंपनी संख्या ४

पॉम्प्ट डीलटेड पाडवेट लिमिटेड

प नाषहस्तांतरिती कंपनी/ याचिकाकर्ता कंपनी संख्या ५ और महावीर आर्यन इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड उनके संबंधित शेयरधारक और लेनटार

याचिका की सुनवाई की सूचना

कृपया ध्यान दें कि आशा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड (इस्तांतरक कंपनी सं. 1/याचिकाकर्ता कंपनी सं. 1) सेटीफोलिया डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड (इस्तांतरक कंपनी सं. 2/याचिकाकर्ता कंपनी सं. 2), महावीर मल्टीरेः प्राइवेट लिमिटेड (इस्तांतरक कंपनी सं. 3/याचिकाकर्ता कंपनी सं. 3) और प्रॉम्प्ट डील्ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड श्राइचर राजारेड (इस्तादिक क्षेत्रका ले. 3 विद्यार्थित क्षेत्रका के अपने क्षान्य डार्क्ट्रड शहर अध्यर राजारेड (हस्तादरक कंपनी सं. 4/याचिकाकर्ता कंपनी सं. 4) का महावीर आर्यन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (हस्ताविटीत कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी सं. 5) और उनके संबंधित शेयरशरकों और लेनवारों के साथ समामेलन की योजना की मंजूरी/अनुमोदन के लिए उपरोक्त नामित "याचिकाकर्ता कंपनिय" द्वारा दिनांक 16.07.2024 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली (पी० - IV) ("माननीय एनसीएलर्टी") के समक्ष याचिका नाननाय हास्त्रीय क्षणा तिथा आयक्तरहर, का तरण (पण) गए) नाननाय कानकारको 7 में नान यायको उत्तर्त्व की गई थी और उन्हें आर्थिका में माननीय एनसीएनटी द्वारा 16,07,2024 को आतेश दिया गया था की उक्त याचिका अब माननीय एनसीएनटी के समक्ष दिनांक 27,08,2024 को अंतिम सुनवाई के लिए निधारित की गई है। याचिकाकर्तो कंपनी संख्या 1 से 4 का पंजीकृत कार्यांलय एफ संख्या-198, एस/एफ एसएफरस, बसंत एम्क्लेच, नई दिल्ली-110057 में खिता है और याचिकाकर्ता कंपनी संख्या 5 का पंजीकृत कार्यांलय 198, डीडीए फ्लैट्स, वसंत एम्क्लेव, वसंत विहार, नई दिल्ली-११००५७ में स्थित है जो इस माननीय न्यायाधिकरण

र वाजाबवगर गर्दे। क याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छक **किसी भी व्यक्ति को** याचिकाकर्ता के अधिकत प्रतिनि को उनके नीचे उल्लिखित पते पर अपने डरादे की सचना भेजनी चाहिए. जिस पर उसके या उसके अधिवक्ता. अधिकृत प्रतिनिधि के हृदताक्षर दोने वाहिए, जिसमें उसका पूरा नाम त्रीहर, जिस होना चाहिए, ताकि याचिका के सुनवार्ड के लिए तयु की गई तारीख से कुम से कम २ (दी) दिन पुरले याचिकाकती के अधिकृत प्रतिनिधि तक पहुँच जाए। जहाँ वह याचिका का विरोध करना चाहता है, वहाँ विरोध के आधार या याचिका के विरोध म इस्तेमाँल किए जाने वाले हलफनामे की एक प्रति ऐसी सुचना के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा याचिका की एक प्रांते निर्धारित शुल्क का भुगतान करके किसी भी व्यक्ति

अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम रं हस्ता/ नवरंग सैनी/नीरज अरोड़ा/रिजवान खाव

कंपनी सचि बी-८८, प्रथम तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली- 130024 **स्थान:** नई दिल्ली **दिनांक:** 30 जुलाई, 2024 मोबाइल नंबर- ९०३४७९३३६९ र्डमेल आईडी- sanjaygrover7@gmail.com

FORM NO. 14 [See Regulation 33(2) BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL ." Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Centre Opp. Kishan Bhawan, Tonk Road, Jaipur-302015

Next Date : 23-10-2024

STATE BANK OF INDIA M/s C.K. International & Others Certificate
Debtoo DEMAND NOTICE

R.C.No.228/2023

o, L. **M/s** C.K. International Sole Prop. Shr Soumil Sankhla, H-1-59, Apparel Park, RIICC ndustrial Area, Sitapura, Jaipur - 302020 2. Shri Soumil Sankhla S/o Late Shri Kanhaiya I. R/o P. No. 13/1053, Kali Mata Ke Mand ce Pass, Malviya Nagar, Jaipur - 302022 Sol Prop. M/s C.K. International

Prop. M/S C.K. International In view of the Recovery Certificate issued in O.A. No. 344/2022 passed by the Presidin Officer, DRT, Jaipur for an amount of Rs. 40,53,971/- (Rs. Forty Lakh Fifty Three) Thousand Nine Hundred Seventy On upees Only) is due against You. . Your are hereby called upon to deposit the bove sum within 15 days of the receipt of the otice, failing which the recovery shall be

notice, failing which the recovery shall be made as per rules.

2. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:

a) Such interest as is payable for the perior commencing immediately after this notice of the execution proceedings.

(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and owarrants and others process that may be taken for recovering the amount due.

DETAILS OF AMOUNT MENTIONED IN THE RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST YOU

Recovery Certificate Amt. Rs. 4053971.0 Rs. 44415.00 i) Publication Fee Rs. 643568.00 Interest from 05.03.202 to 13.06.2023 @ 12.70% with Simple Interest Amount recovered after

R.C. issued (if any) (vi) Legal Charges (Vii) Total Dues as per Affidavit Rs. 4741954.00 Recovery Officer-II
The Debts Recovery Tribunal, Jaip

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR Case No.: 0A/397/2024

Exh. No.: 12153

STATE BANK OF INDIA MS BASANTI LAL MITHA LAL JAIN

I) MS BASANTI LAL MITHA LAL JAIN. I) MS BASAMIT LAL MITTA LAL JAIN, A PROPRIETORSHIP FIRM HAVING ITS REGISTERD OFFICE AT MAIN MARKET, /ILLAGE KHERODA, TEHSIL VALLABH NAGAR, UDAIPUR, RAJASTHAN-341025 NAGAR, JUDAIPUR, RAJASIHAN-341025
Also at KHAKAR DEV JI KE PASS VILLAGE
KHERODA, TEHSIL VALLABH NAGAR DIST.
UDAIPUR, RAJASTHAN-313602
(2) SHRI BASANTI LAL JAIN S/O MITHA LAL
JAIN, R/O MAIN MARKET VILLAGE
KHERODA, TEH. VALLBHNAGAR, DIST.
UDAIPUR, RAJASTHAN-341025

Iso At. KHAKAR DEVJI KE PASS. VILLAGI (HERODA, TEHSIL VALABHNAGAR DIST JDAIPUR, RAJASTHAN - 313602 SUMMONS

WHEREAS, **OA/397/2024** was listed before to be before the before t

0.04.2024. VHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased t WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to ssue summons/ notice on the saic opplication under section 19(4) of the Act (OA) filed against you for recovery of debts or st. 2473481/- (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 9 of the Act, you, the defendants are lirected as under:

irected as under:
) to show cause within thirty days of the vice of summons as to why relief praye should not be granted. (ii) to disclos ticulars of properties or assets other tha articulars of properties or assets other tha roperties and assets specified by pplicant under serial number 3A of th riginal application. (III) You are restraine room dealing with or disposing of secure sests or such other assets and propertie isclosed under serial number 3A of the riginal annification mending bearing an lisclosed under serial number AA of the riginal application, pending hearing and lisposal of the application for attachment of ropperties. (iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the sests over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed under serial number AA of the original application without the prior proproval of the Tribunal. (i) You shall be liable o account for the sale proceeds realised by ale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business with the prior service of the service of the service of the service or t e of secureu asserties in the ordinary course of pusines operities in the ordinary course of pusines dedeposit such sale proceeds in the account aintained with the bank or financial aintained with the bank or financial security interest over

nstitutions nothing second, used assets, fou are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished the applicant and to appear before Registra on 07.11.2024 at 10:30 AM failing which the application shall be heard and decided in you pplication shall be heard and decide bsence. Given under my hand and tl his Tribunal on this date **16.05.2024**. Assistant Registrar

Debts Recovery Tribunal, Jaipur

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLNOD00447717 1. शमीम अहमद 2. महजबी	फ्लैट नंबर 19, तल मंजिल, डीडीए फ्लैट ब्लॉक-सी-10, पॉकेट-3, सेक्टर-34, रोहिणी, नई दिल्ली- 110045, दिल्ली	09.07.2024	रु. 8,17,101.68/- (रुपए आठ लाख सत्रह हजार एक सौ एक और अड़सठ पैसे मात्र) 15.07.2024 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HHLRHN00525177 1. अनीता 2. मोहित चड्डा (गारंटर)	प्रोपर्टी नंबर ई-172, तीसरी मंजिल, सामने की तरफ (पूर्वी भाग), छत के अधिकारों के साथ, ब्लॉक-ई, मनसा राम पार्क, गांव मटियाला, उत्तम नगर, खसरा नंबर 15/11/2, नई दिल्ली- 110059	04.07.2024	रु. 17,46,055.45/- (रुपए सत्रह लाख छियालीस हजार पचपन और पैंतालीस पैसे मात्र) 15.07.2024 के अनुसार
3.	कर्ज खाता क्र. HHLRHN00296604 1. प्रदीप रावत 2. परमजीत रावत	डीडीए फ्लैट नंबर 323, (जी+3 स्ट्रक्चर), पॉकेट डीजी-3, दूसरी मंजिल, एलआईजी, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018	09.07.2024	रू. 40,08,098.76/- (रूपए चालीस लाख आठ हजार अड्डानवे और छिहत्तर पैसे मात्र) 18.07.2024 के अनुसार
4.	कर्ज खाता क्र. HDHLLAJ00487575 (पहले डीएचएफएल का लैन कोड 00000505) 1. सुधीर कुमार मिश्रा 2. सुनीता मिश्रा	प्रोपर्टी नंबर 622/ए, तीसरी मंजिल, पीछे की तरफ, गली नंबर 5-ए, खसरा नंबर 622/92, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली – 110019	09.07.2024	रु. 16,71,357.36/- (रूपए सोलह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ सत्तावन और छत्तीस पैसे मात्र) 16.07.2024 के अनुसार
5.	कर्ज खाता क्र. HHLNOI00460436 1. तरुण साहनी 2. सारिका साहनी 3. साहनी टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड	ऊपरी तल मंजिल प्लॉट नंबर 12, सुख विहार, शाहदरा, नई दिल्ली-110051	04.07.2024	रु. 62,79,626.15/- (रुपए बासठ लाख उनासी हजार छह सौ छब्बीस और पंद्रह पैसे मात्र) 15.07.2024 के अनुसार

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पूनर्भगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनाक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित

संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, Ackruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400093 SEBI Registration No (Stock Broker): INZ000161534

PUBLIC NOTICE

Name of SB/AP	Trade Name of SB/AP	NSE Reg. No.	BSE Reg. No.	MCX Reg. no.	NCDEX Reg. no.	Regd Address of SB/AP						
KANTA JAIN	KANTA JAIN	AP0397 591421	AP01061 201158013	MCX/AP/ 164557		W/O Pramod Jain, 914,1st Floor Inder Wali Gali, Kucha Pati Ramsita Ram Bazar Near Jain Mandir Delhi 110006						
This is to inform	n/confirm that we	have discont	inued our Busi	iness Relatio	ns with the a	bove mentioned Authorized Persons, Clients and						

General Public are warned against Dealing in with them in his/their capacity as our Authorized Persons and we hereby confirm that we will not be liable in any manner for any consequence of such dealings/deals

Clients are requested to contact our centralized desk 022-3355 1111/4218/5454 or email us to support@angelbroking.con For ANGEL ONE LTD Date: 31.07.2024 Authorised Signatory

__IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइबैंस कार्पोरेशन लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002. **शाखा कार्यालय** : दुकान नंबर 67 बी एवं 68, द्वितीय तल, प्लॉट नंब 277 (ईस्ट), टैगोर नगर, डीसीएम के बगल, अजमेर रोड, जयपुर -302021, राजस्थान, **शाखा कार्यालय** : तृतीय तल, केनरा बैंक के ऊपर, निकट आईडीबीआई बैंक, डाक बंगर के सामने, अजमेर रोड, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान -305801, **शाखा कार्यालय** : बिल्डिंग नंबर ९, बसंत विहार, बांगर कालेज के सामने, पाली, राजस्थान-306401 सार्वजनिक सूचना – अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए नीलामी

ख्यतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(०) के तहत, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिय रोस्टर फाइनैंस कार्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रतिभृत लेनवार) के पास संबक अध्यत सम्पतित / याँ की बिक्री हेतु सूचना एतदहारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(शें) सह-कर्जवार(शें) तथा पास्टर(शें) अध्यत उनके कानूनी बारिस / सां प्रतिभिध्यों को सूचना दी जाती है कि प्रत्यामृत लेनवार के पास संबक / प्रमासित निम्मवर्णित अध्यत सम्पतित / याँ जिनका का आईएसएफसी (प्रतिमृत लेनवार) के प्राधिकत अधिकारी हारा तथा जा चुका है, मेरेब वर्णित कर्जवारों, सह-कर्जवारों अध्यता गार्टरों से काग्या शांके की वसूची वें लिए विताक 20-08-2024 (नीलामी की तिक्षि) को जैसी है जाता है तथा जो भी है वहां है आधार पर बेंगे जाएंगी। सुरक्षित मृत्य और बरोहर राशि जमा नीव ालपु (न्याक **200-08-2028 (नालामा का तात्र्य)** को **जस्ता है जिहा है।** तथा जो भी है **पहां** के आधार पर बचा आएगा है पहां है वर्चा की वर्चों के विश्व है। सार्वजनिक नी निल्म है में मां लेने के लिए ईएमझी शिष्ठ युक्त सीलबंद लिकाका आईएफलसफा क्राधिक्त अधिकारी के पास 17-08-2024 को अथवा पूर्व आ ८ ह को तक शाखा /कापीरेट कार्यालय : लॉट-15, छवा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालय : लॉट-16, छवा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालय : तृतीय तल, केनल बैंक के ऊपर, निकट आईडीबीआई के, डाक बंगता के सामने, अजमेर रोड, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान –305801, शाखा कार्यालय : बिल्डिंग नंबर 9, बसंत विहार, बांगर कालेज के सामने, पाली, राजस्थान-306401 में जमा करना होगा।

ऋण खाता सं	कर्जदार(रॉ) / सह— कर्जदार(रॉ) / गारंटर(रॉ) / कानूनी वारिस(सॉ) / कानूनी प्रतिनिधि का नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि तक बकाया राशि	कब्जा का प्रकार (प्रलक्षित/भौतिक के तहत)	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
HL2000003902/ AP-0361585	श्रीमती भंवरी देवी एवं भंवर लाल	मांग सूचना : 27-04-2022 रू. 3,92,839.28 / - (रूपए तीन लाख बानवे हजार आठ सी उन्तालीस तथा पैसे अठ्ठाईस मात्र) 30-04-2022 तक बकाया तथा 01-05-2022 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रमार एवं लागत		रू. 4,43,000 / – (रूपए चार लाख तेतालीस हजार मात्र)	रू. 44,300 / — (रूपए चौवालीस हजार तीन सौ मात्र)
सम्पत्ति का वर्णन	: सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड	ः सम्पत्ति प्लॉट नंबर 126, चक नंबर 01,	खसरा नंबर 943, विकाश	नगर विस्तार, पा	ली (राजस्थान),

परिमाप 500 वर्ग फीट, चौहददी निम्नानुसार — पुरब : रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर 131, उत्तर : प्लॉट नंबर 125, दक्षिण : प्लॉट नंबर 126 ए

000005021622		भात्र) 31—12—2021 तक बकाया तथा 01—01—2022 से मुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	, ,	(रूपए एक लाख इकतीस हजार दो सौ मात्र)				
	म्पित का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति खसरा नंबर 188, ग्राम अजीजपुर मुंडावर, अलवर, राजस्थान–301404, सम्पत्ति का त्रफल 422.22 वर्ग गज, चौहददी निम्नानुसार – पुरब : अन्य खाली प्लॉट , पश्चिम : रोड, उत्तर : महावीर का प्लॉट , दक्षिण : सुंदर का प्लॉट							
HL1800000561/	श्रीमती रीना देवी एवं	मांग सूचना तिथि : 07-06-2018	भौतिक कब्जा	₹5.	₹5.			
AP-0134918	श्री मरदान सिंह मेहरा	रू. 2,07,138 / – (रूपए दो लाख सात हजार		1,11,000 / -	11,100 / -			
		एक सौ अड़तीस मात्र) 30-06-2018 तक		(रूपए एक	(रूपए ग्यारह			

तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत हजार मात्र) मात्र) सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : खसरा नंबर 981 ग्राम खोड़ा (खोड़ा गणेश) ग्राम पंचायत–बबानी, तहसील एवं जिला अजमे राजुस्थान, क्षेत्रफल परिमाप 66 वर्ग गज, चौहद्दी निम्नानुसार – पूरब : सरकारी पहाड़ी, पश्चिम : मंदिर राम जी एवं रास्ता, उत्तर : फोरमेन का मकान

बकाया तथा 01-07-2018 से भुगतान की

LA11CLLONS

000005002699

थी / श्रीमती ममता

श्री /श्रीमती श्राम लाल

1) निर्धारित निविदा /बोली प्रपत्र तथा बिक्री के नियम और शर्ते शाखा /कार्पोरेट कार्यालय : पंजीकत कार्यालय : प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्युशनल एरिया, गुरुग्रा हरियाणा—122002, **शाखा कार्यालय**: दुकान नंबर 67 बी एवं 68, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 277 (ईस्ट), टैगोर नगर, डीसीएम के बगल, अजमेर रोड, जयपुर —302021, राजस्थान **शाखा कार्यालय :** ततीय तल केनरा बैंक के ऊपर निकट आईडीबीआई बैंक डाक बंगला के सामने अजमेर रोड. मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान -30580 **शाखा कार्यालय :** बिल्डिंग नंबर 9, बसंत विहार, बांगर कालेज के सामने, पाली, राजस्थान—306401 से प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक प्रा किए जा सकते हैं।

) उपरोक्त सम्पत्ति/यों के क्रय हेतु प्रस्तुत सभी बोलियों/निविदाओं के साथ उपरिवर्णित अनुसार बरोहर राशि संलग्न करनी होगी। ईएमडी राशि "इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेश लिमिटेड के पढ़ा में होनी चाहिए। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि, नीलामी के बाद, वापस की जाएगी।

4) उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा परंतु शर्त यह है कि वह बोली देने हेतु कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए और कि बोली राशि सुरक्षित मूल्य

कम नहीं होनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी को उच्चतम बोली अस्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा, यदि प्रस्तावित राशि उसको स्वीकार करने हेतु अपर्याप्त प्रतीत होती है 5) भविष्यलक्षी बोलीदाता भेंट का समय पूर्व निर्धारित कर सम्पत्ति का निरीक्षण 16-08-2024 को पूर्वा. 11.00 बजे तथा अप. 5.00 बजे के बीच कर सकते हैं।

a) सफल बोलीदाता घोषित किए जाने वाले व्यक्ति को, घोषणा के तत्काल पश्चात, क्रय रशि/उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत राशि, जिसमें ईएमडी राशि सम्भिलित होगी, प्राधिक् अधिकारी के पास 24 घंटे के मीतर जमा करनी होगी और इसके जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्की के लिए प्रस्तुत की जाएगी।) उपरोक्तानुसार आरंभिक राशि जमा करने के बाद, क्रय राशि की शेष राशि, क्रेता द्वारा प्राधिकत अधिकारी को सम्पत्ति की बिक्री पृष्टि की तिथि से, उस दिन को छोड़कर, 15 दिन को अथवा पूर्व, या 15वां दिन रविवार या अवकाश दिवस होने की स्थिति में 15वें दिन के बाद पहले कार्यदिवस को अदा करनी होगी।

उपरिवर्णित अवधि के भीतर भुगतान में चुक की रिथति में, सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी। जमा की जा चकी राशि ईएमडी सिंह इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति के संबंध में चूककर्ता क्रेता के सभी दावे समाप्त माने जाएंगे।

9) उपरोक्त बिक्री आईएसएफसी द्वारा अंतिम स्वीकृति के अधीन होगी, इच्छूक पार्टियों से अनुरोध है कि सांविधिक और अन्य बकाया जैसेकि बिक्री / सम्पत्ति कर, बिजली बका तथा सोसायटी बकाया की जांब/पुष्टि संबंधित विभागों/कार्यालयों से कर लें। कम्पनी सम्पत्ति पर किसी बकाया के मुगतान की जिम्मेदारी नहीं लेगी।

10) 1 प्रतिशत टीडीएस, यदि कोई, उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम घोषित बोली राशि पर देय होगा। उच्चतम बोलीदाता को मुगतान कम्पनी के पैन में करना होगा तथा चाला

की प्रति कम्पनी में प्रस्तुत करनी होगी। 11) बिक्री पूर्णतया इस विज्ञापन में और निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट नियमों एवं शतों के अधीन होगी।

12) सफल बोलीदाता/केता को विक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने के लिए कानूना के अनुसार लागू सभी स्टाम्प ख्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अनुषंगी खर्च वहन करने होंगे। 13) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने अधवा बिना कोई कारण बताए निविदा प्रास्थिगत/स्थागित/सरत करने और बिना कोई पूर्व सूचना दिए इस बिक्र के नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का पर्ण अधिकार है।

14) इच्छक बोलीदाता श्री विनय से मोबाइल नंबर +91 - 7988605030 पर कार्यालय समय के दौरान (पर्वा. 10.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक) सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को 15 दिन का बिक्री नोटिस

tbo.com

CIN: L74999DL2006PLC155233

TBO TEK LIMITED

INFORMATION REGARDING 18TH ANNUAL GENERAL MEETING

The eighteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of TBO Tek Limited ("the Company") will be held on Friday, August 23, 2024, at 2:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM ("Notice") which will be circulated in due course.

The Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued in this regard (collectively referred as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and other applicable circulars issued in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars"), have permitted the holding of AGM through VC or OVAM, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder ("Act"), and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2014 read with MCA Circulars and SEBI Circulars. the Notice along with Annual Report for the FY 2023-2024 will be sent through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants ("DPs") as on July 26, 2024 being the cut-off date. The hard copy of the full Annual Report will be sent to the Members who will request for the same. The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.tbo.com, website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e., BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Member can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning augrum under Section 103 of the Act. The instructions for joining the AGM will be

Remote e-voting facility will be provided to the Members to cast their votes on the resolutions set out in the Notice. Additionally, the Company will also provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. Members are requested to cast their vote using the remote e-voting facility prior to or during the AGM. Detailed procedure for casting votes through remote e-voting/e-voting at the AGM, shall be provided in the Notice

If your email address is not registered with the Company/DP, you are requested to register the same by following the procedure specified in the Notice, which is as follows:

Type of Holding	Action required by Shareholders						
Dematerialised	Dematerialised The members holding shares in electronic mode are requested to register/update their em addresses, PAN and Bank Account details with their relevant DPs.						
Physical	The members holding shares in physical form are requested to send the Form ISR-1 duly signed by the registered member(s) along with the requisite documents mentioned in the Form to our Registrar and Share Transfer Agent at ris@kfintech.com.						

Pursuant to SEBI Circular dated November 03, 2021 (as amended by circulars dated December 14, 2021, March 16, 2023 and November 17, 2023), shareholders holding physical shares are requested to note that if folio(s) are not updated with PAN, choice of nomination, contact details, mobile number, bank account details and specimen signatures then any payment including dividend, in respect of shares, will be effected only through electronic mode effective from April 01, 2024, upon furnishing of all the aforesaid details to Registrar and Share Transfer Agent.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company, in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

For TBO Tek Limited

Neera Chandak Company Secretary and Compliance Officer

Regd. Office: E-78, South Extension Part I, New Delhi-110049, India Telephone No.: +91 124 499 8999; Email: corporatesecretarial@tbo.com; Website: www.tbo.com

Place: Gurugram

Date: July 30, 2024

स्थान : नई दिल्ली

प्रतिबंधित हैं।

प्राधिकत अधिकारी



MACHINO PLASTICS LTD. Read. Office & Plant: PLOT NO. 3, MARUTI JOINT VENTURE COMPLEX.

GURUGRAM - 122015 (HARYANA) CIN: L25209HR2003PLC035034

Tel: 0124-2341218, 2340806 Email: sec.legal@machino.com Website: www.machino.com NOTICE OF THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the thirty-ninth Annual General Meeting ("AGM") of MACHINO PLASTICS LIMITED ("Company") will be held on Tuesday, September 3, 2024 at 10:30 AM Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 in relation to extension of the framework provided in the aforementioned circulars up to September 30, 2024, issued by the MCA (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/ CFD/ CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, Circular No. SEBI/ HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing

Regulations"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM

Facility, without physical presence of the Members of the Company at a

common venue In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and in compliance with the Listing Regulations, the Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") along with the Notice of AGM will be sent only through electronic mode to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company Depository Participant(s). The Annual Report along with the Notice of AGM will also be made available on the Company's website at www machino.com. websites of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and website of the NSDL at https://www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM and the detailed procedures for e-voting will be provided in the Notice of the AGM. The Company will be providing to its Members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting /e-voting will be provided in the Notice of the AGM. Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be followed for obtaining the User ID and password for casting the vote through remote e-voting. In order to receive the Notice of AGM and the Annual Report, Members

are requested to register/update their email addresses with the Company by following below instructions: Instructions:

(a) Members holding shares in physical mode may register/ update their email address in prescribed Form ISR-1 with the Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company i.e. Alankit Assignments Limited

(b) Members holding shares in Demat mode may register their email address/update Company account mandate by contacting their espective Depository Participant ("DP")

For Machino Plastics Limited

Place: Gurugram Date: July 29, 2024

Aditya Jindal Chairman cum Managing Direct

EICHER

EICHER MOTORS LIMITED CIN: L34102DL1982PLC129877

Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi - 110017 **Telephone:** +91 11 41095173

Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana **Telephone**: +91 124 4445070

Email: investors@eichermotors.com Website: www.eichermotors.com **NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of members of Eicher Motors Limited (the Company) is scheduled to be neld on Thursday, August 22, 2024 at 2.00 p.m. IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules framed thereunder, SEBI (LODR) Regulations, 2015, read with circulars issued by MCA and SEBI in this regard, to transact the business items as set out in the notice of the AGM

The Company has on July 30, 2024, completed sending notice of 42nd AGM along with Integrated Annual Report for financial year ended March 31, 2024 through email (using NSDL) to members whose email IDs are registered with the Company or Depositories.

The Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote on the business items as set out in the notice of the AGM from any place , through the electronic voting system ("e-voting") of NSDL. Members of the Company, holding shares either in physica form or in dematerialized form, as on the cut-off date of August 16 2024, may cast their vote by e-voting (including e-voting during AGM) Instructions & manner of casting vote through e-voting, including by members who are holding shares in physical form or have not registered their email ids, are provided in notice of the AGM. The e voting period commences on August 19, 2024 (9:00 A.M. IST) and ends on August 21, 2024 (5:00 P.M. IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and e-voting shall not be allowed beyond said date and time. The facility for e-voting shall again be made available during the AGM on August 22, 2024. The members who have not cast their votes through e-voting upto August 21, 2024 can cast their vote during the AGM using the same e-voting credentials. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be eligible to vote again at the

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. August 16, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.com** and AGM2024@eichermotors.com. However, if a member is already registered with NSDL e-services i.e. IDEAS, he can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with his existing IDEAS login. If the member forgets his password, he can reset his password by using instructions for remote e-voting contained in the AGM notice.

Members who have not registered their email ids/bank account details are requested to visit https://liiplweb.linkintime.co.in/KYC/index.html portal of Link Intime India Pvt. Ltd., Registrar & Share ransfer Agent of the Company and update their details and those holding shares in demat form are requested to contact their respective Depository Participant (DP) and follow the process advised by DP

In case of any gueries relating to voting by electronic means, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at telephonic number no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com. For any grievances relating to voting by electronic means, members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

The aforesaid Notice of 42nd AGM and Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 are available on the website of the Company at www.eichermotors.com and on the websites of stock exchanges i.e BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The above information is also available on the Company's website and website of stock exchanges

For Eicher Motors Limited

Date: July 30, 2024 Place: Gurugram, Harvana



Atul Sharma

Company Secretary

INDO COUNT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L72200PN1988PLC068972

卐

Regd. Off.: Office No. 1, Plot No. 266, Village Alte, Kumbhoj Road, Taluka Hatkanangale, Dist. Kolhapur - 416 109. Tel. No.: (230) 2483105; Fax No.: (230) 2483275; e-mail: icillinvestors@indocount.com; Website: www.indocount.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30[™] JUNE, 2024

(₹ in lakhs except EPS)

		C	Year ended		
Sr. No.	Particulars	30-06-2024 Unaudited	31-03-2024 Unaudited (Refer Note vii)	30-06-2023 Unaudited	31-03-2024 Audited
1	Total income from operations	94,996.60	1,09,349.77	74,668.68	3,60,079.25
2	Net Profit before tax	10,761.24	12,385.52	9,699.92	45,031.14
3	Net Profit after tax	7,779.76	9,194.32	7,374.03	33,792.50
4	Total Comprehensive Income	8,127.93	9,025.39	8,413.66	33,598.07
5	Paid up Equity Share Capital	3961.08	3961.08	3961.08	3961.08
6	Earning Per Share (of ₹ 2/- each) Basic and Diluted (Not Annualised)	3.93	4.64	3.72	17.06

Place: Mumbai

Date : July 31, 2024

Notes: i) Company's Standalone Financial information is as below:

	Quarter ended				Year ended	
Sr. No.	Particulars	30-06-2024 Unaudited	31-03-2024 Unaudited (Refer Note vii)	30-06-2023 Unaudited	31-03-2024 Audited	
1	Total income from operations	91,694.45	1,00,182.23	68,177.15	3,37,855.13	
2	Net Profit before tax	10,941.04	12,446.52	9,072.86	43,110.56	
3	Net Profit after tax	7,906.73	9,239.13	6,721.36	32,030.28	
4	Total Comprehensive Income	8,374.24	9,161.09	7,807.85	32,237.37	
5	Paid up Equity Share Capital	3,961.08	3,961.08	3,961.08	3,961.08	
6	Earning Per Share (of ₹ 2/- each) Basic and Diluted (Not Annualised)	3.99	4.66	3.39	16.17	

- ii) The above results of Indo Count Industries Limited ('the Company') and its Subsidiaries (together referred to as 'Group') were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 29, 2024. The Statutory Auditors of the Company have conducted a Limited Review of the above Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024.
- The above Financial Results are prepared in compliance with Indian Accounting Standard ("IndAS") as notified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") [Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015], as amended.
- During the Quarter Holding Company's wholly owned subsidiary, Indo Count Global Inc., USA, acquired the registered trademarks, trademark applications, associated intellectual property contracts and all domain names of the brand name 'Wamsutta' for a total consideration of \$10.25Mn (equivalent ₹ 8.549.01 lakhs).
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results of the Quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 are available on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website at www.indocount.com.
- vi) The Group is primarily engaged in the activity of manufacture of textile products. Information is reported to and evaluated regularly by the Chief Operating Decision Maker (CODM) for the purpose of resource allocation and assessing performance, focuses on the business as a whole and accordingly, there is a single reportable segment (i.e. Textile Business) in the context of the Operating Segment defined under Ind AS 108.
- The figures for the Quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full Financial Year ended on March 31, 2024 and the unaudited published year to date figures upto third Quarter of the said financial year.

MUMBAI | WEDNESDAY, 31 JULY 2024 Business Standard

Aditya Birla Sun Life **Mutual Fund**



MUTUAL FUNDS

Place: Mumbai

Date: July 30, 2024

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Registered Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mills, Senapati Banat Marg. Finhinstone Road. Mumbai - 400 013. Tel.: 4356 8000. Fax: 4356 8110/8111. CIN: I 65991MH199

Notice

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and circulars issued from time to time, the scheme wise Annual report and abridged summary thereof for the year ended March 31, 2024 are hosted on the website of the Aditya Birla Sun Life Mutual Fund viz. https://mutualfund.adityabirlacapital.com/ and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com

The scheme wise annual report or abridged summary thereof shall be emailed to those investors, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Investors can request for a physical copy or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof through any of the following modes:

- 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800-270-7000 (Toll free)
- 2) Email: Send an email to care.mutualfunds@adityabirlacapital.com
- 3) SMS: Send a SMS to 567679 from investor's registered mobile number. SMS format: AR <SPACE>PAN. Example: AR ABCDE1234H
- 4) Written request (letter) to:
- a) Registered office or any of the Investor Service Centres of Aditya Birla Sun Life AMC Limited.
- b) Computer Age Management Services Limited (CAMS) at Computer Age Management Services Ltd., New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam, Chennai - 600 034.

For Aditya Birla Sun Life AMC Limited

(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund)

O

GAYATRI

Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme

HIGHWAYS LIMITED

related documents carefully.

Regd office: 5th Floor, A- Block, TSR Towers, 6-3-1090, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad-500082, Telangana. Tel: 040-40024262 Email: cs@gayatrihighways.com Web: www.gayatrihighways.com CIN: L45100TG2006PLC052146

_	161. 040-40024202 E	man. cacegay	atimignway	s.com web. v	www.gayatiiii	igiiways.com	CIIV. L43100	IGZUUUF LCU.	72140
	EXTRACT OF UNAUDITE	D FINAN	CIAL RES	ULTS FOR	R THE QU	ARTER EN	IDED 30T	H JUNE 2	024
Ι.,					-		(Rs	. in Lakhs, un	less specified,
SI.	Particulars		S	tandalone			Consolid	ated	
No		For t	For three months ended		For the year ended	For t	hree months	ended	For the yea ended
		30-Jun-2024	31-Mar-2024	30-Jun-2023	31-Mar-2024	30-Jun-2024	31-Mar-2024	30-Jun-2023	31-Mar-2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	227.09	2,086.35	89.53	2,362.72	227.09	1,971.96	75.54	2,206.35
2.	Net loss before tax and exceptional items	(210.56)	1,418.90	(458.53)	(61.94)	(210.68)	1,304.00	(472.72)	(219.23)
3.	Net profit/(loss) after exceptional items and before tax	(210.56)	1,408.90	(458.53)	(71.94)	(210.68)	(10,225.80)	(472.72)	(11,749.03)
4.	Net profit/(loss) for the period after tax from continuing operations	(213.07)	1,408.67	(458.53)	(77.25)	(213.19)	(10,226.03)	(472.72)	(11,754.34)
5.	Net profit/(loss) for the period after tax from continuing operations and discontinued operations		1,408.67	(458.53)	(77.25)	(7,493.30)	(16,826.11)	(9,768.21)	(44,112.43)
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]		1,413.46	(458.53)	(72.46)	(7,493.30)	(16,821.32)	(9,768.21)	(44,107.64)
7.	Equity share capital	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04	4,793.04
8.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as per the Audited Balance Sheet of the previous year				(24,040.38)			•	(1,80,269.96
9.	Earnings Per Share(of Rs.2/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic and Diluted (not applicated the quarterly data)		0.59	(0.19)	(0.03)	(3.13)	(7.02)	(4.08)	(18.40

Notes:

- a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Audited Financial Results is available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com (BSE), www.nseindia.com (NSE) and on the company's website at www.gayatrihighways.com.
- b) The above Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results were reviewed by the Audit Committee on 30th July 2024 and approved by the
- Board of Directors at their meeting held on 30th July 2024. c) The Statutory Auditors has expressed a qualified conclusion on the following:

Standalone Financial Results:

- a) The company has written back Zero Interest Subordinate Loan (ZISL) payable to Gayatri Projects Limited of Rs.17,887.51 Lakhs during the financial year 2022-23 which has been subject to confirmation from Gayatri Projects Limited. In the absence of balance confirmation, we are unable to comment upon the aforesaid write back or any adjustment required to and the consequent impact if any on these standalone financial results for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 had the confirmations been received from the Gayatri Projects Limited.
- b) The company has defaulted in repayment of outstanding term loan of Rs.3,822.65 Lakhs and outstanding accumulated interest of Rs.1,193.21 Lakhs (Interest was recognized in the financial statements till 31 March 2023) payable to IL&FS Financial Services Limited. The Company has been calculating and recognizing interest only on the defaulted principle of Rs.3,822.65 Lakhs as per the existing loan agreement since the Company has not received balance confirmation from the said lender. In the absence of balance confirmation, we are unable to comment on the interest/penalty if any to be provided in the books or any adjustment required to and the consequent impact if any on these standalone financial results for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 had the confirmations been received from the lender.
- c) The standalone financial results the company did not provide interest on the outstanding term loan of Rs.3,822.65 Lakhs due to IL&FS Financia Services Limited for the period 01 April 2024 to 30 June 2024. The Company's records indicate that, had management provided interest for the period 01 April 2024 to 30 June 2024, the expenses, the net loss after tax and total comprehensive loss for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 would have been increased by Rs.142.95 Lakhs.

Consolidated Financial Results:

- a) The Holding Company has written back Zero Interest Subordinate Loan (ZISL) payable to Gayatri Projects Limited of Rs.17,887.51 Lakhs during the financial year 2022-23 which has been subject to confirmation from Gayatri Projects Limited. In the absence of balance confirmation, we are unable to comment upon the aforesaid write back or any adjustment required to and the consequent impact if any on these consolidated financial results for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 had the confirmations been received from the Gayatri Projects Limited.
- b) The Holding Company has defaulted in repayment of term loan of Rs.3,822.65 Lakhs and interest of Rs.1,193.21 Lakhs (Interest was recognized in the financial statements till 31 March 2023) payable to IL&FS Financial Services Limited. The holding company has been calculating and recognizing interest only on the defaulted principle of Rs.3,822.65 Lakhs as per the existing loan agreements since the Company has not received balance confirmation from the said lender. In the absence of balance confirmation, we are unable to comment on the interest/penalty if any to be provided in the books or any adjustment required to and the consequent impact if any on these consolidated financial results for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 had the confirmations been received from the lender.
- c) The Holding Company did not provide interest on the outstanding term loan of Rs.3.822, 65 Lakhs due to IL&FS Financial Services Limited for the period 01 April 2024 to 30 June 2024. The Company's records indicate that, had management provided interest for the period 01 April 2024 to 30 June 2024, the expenses, the net loss after tax and total comprehensive loss for the period 01 April 2024 to 30 June 2024 would have been increased by Rs.142.95 Lakhs.
- d) We were informed that the Holding Company did not receive the unaudited financial results of Indore Dewas Tollways Limited (IDTL), which is a material subsidiary of the Holding Company for the quarter ended 30 June 2024 for the reasons stated there under. We were informed that the hon'ble NCLT bench at Hyderabad had admitted IDTL into Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 (as amended) and appointed Interim Resolution Professional (IRP). In the absence of consolidation of the subsidiary
- we are unable to determine the effects of the failure to consolidate the subsidiary on these consolidated financial results. e) We draw your attention to the following qualified conclusion on the unaudited financial results of Sai Maatarini Tollways Limited, a subsidiary of the Holding Company issued by an independent firm of Chartered Accountants vide its Report dated 29 July 2024 reproduced by us as under.
- a. As per the settlement agreement, the company and NHAI had agreed for a termination payment of Rs.96,803 lakhs against all disputes/claims The settlement amount of Rs.96,803 Lakhs includes termination payment, interest, claims receivable by the company net of recoveries by NHAI. The company had received Rs.79,650 Lakhs and balance settlement amount to be received is Rs.17,153 Lakhs. However pending settlement with the lenders, the company continues to recognise Net receivable from NHAI of Rs.98,578 Lakhs (Net of Rs.79,650 Lakhs receipt). Henceforth the expenses (Write off of Receivable) of the company are understated by Rs.81,425 Lakhs and assets overstated by Rs.81,425 Lakhs.
- b. Non receipt of the confirmations of balances from banks and financial institutions in respect of borrowings of Rs.2.18.887.00 Lakhs for the reasons detailed thereunder. The Company had recognized interest expense and other finance charges during the period amounting to Rs.6,890.83 Lakhs as per existing loan agreements. We are unable to comment on impact, if any, on loss for the period and the Reserves had the confirmations beer received from the lenders.
- c. During the Financial year 2022-23, the company has written off a receivable of Rs.1,011.02 Lakhs from Gayatri Projects Limited and written back trade payable of Rs.2,915.68 Lakhs and claims payable of Rs 22,745 lakhs to Gayatri Projects Limited. However, we have not received any confirmation from Gayatri Projects Limited for the write off/writeback For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad Chairman Date : 30th July, 2024

M.V.Narasimha Rao DIN: 06761474

K.G.Naidu Chief Executive Officer

GAYATRI HIGHWAYS LIMITED

For Indo Count Industries Limited **Anil Kumar Jain**

Executive Chairman DIN: 00086106